

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16—जनवरी 22, 2016 (पौष 26, 1937)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16—JANUARY 22, 2016 (PAUSA 26, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

सं. डीपी पर्स. 1/2015/232/3/67/2013—पर्स—1—के.अ.ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर तैनात श्री विजय कुमार, एसएओ, एसएसबी की सेवाएं समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर दिनांक 09.10.2015 के अपराह्न से उनके पैतृक विभाग अर्थात् सशस्त्र सीमा बल को वापस सौंपी जाती हैं।

दीपिका सूरी
उप—निदेशक (कार्मिक)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

सं. डीपीपर्स—I 2015/231/11/3/2015—राष्ट्रपति, के.अ.ब्यूरो के निम्नलिखित वरिष्ठ लोक अभियोजकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से के.अ.ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रोन्नति पर उप विधि सलाहकार के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	उप विधि सलाहकार के रूप में नियुक्ति की तिथि
1	बृज मोहन लाल अहीर	15.09.2015
2	अखिलेश	16.09.2015
3	अक्षय गौतम	12.10.2015
4	मसूद अहमद	21.09.2015
5	चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	24.09.2015
6	श्याम सिंह यादव	21.09.2015

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 21 दिसम्बर 2015

सं. डीपीपर्स-I 2015/6149/3/19/96—श्री बृज मोहन लाल अहीर, उपविधि सलाहकार, के.अ.ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, नई दिल्ली ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.09.2015 के अपराह्न से उपविधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-03, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

सं. ई-38013/02/अ.सू./रा.प.अ./2015/कार्मिक.1/658—राष्ट्रपति द्वारा, श्री योगेश मेहता, वरिष्ठ कमांडेण्ट को रु. 37,400-67,000/ (पीबी-4)+ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में अनुमानित तौर पर के.ओ.सुब में उप महानिरीक्षक के पद पर दिनांक 14.07.2014 (अपराह्न) से, जिस तिथि से उनके तत्काल कनिष्ठ श्री जे.डब्ल्यू खान ने उप महानिरीक्षक का पदभार रिक्ति वर्ष 2014-15 के प्रतिकूल ग्रहण किया था, सहर्ष पदोन्नत किया जाता है। अतएव, उनका वेतन तदनुसार निर्धारित किया जाये।

02. श्री योगेश मेहता ने नियमित तौर पर उप महानिरीक्षक का पदभार दिनांक 17.12.2015 (पूर्वाह्न) को के.ओ.सुब उ०प० क्षेत्र मुख्यालय कोलकाता में ग्रहण किया है। अतः अनुमानित तिथि से उप महानिरीक्षक के पद पर उनकी पदोन्नति केवल वरीयता को संरक्षित करेगी और आधारित राजकीय अनुदेशानुसार वह दिनांक 14.07.2014 (अपराह्न) से दिनांक 16.12.2015 (अपराह्न) तक उप महानिरीक्षक पद के किसी वेतन एवं भत्ते के बकाया का हकदार नहीं होंगे।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

सं. ए.एम.जी.-1/प्रशासन.-1/2(1)राजपत्र/2015/773—महानिदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे बैंड-2 में रुपये 9300-34800 तथा रुपये 5400 के ग्रेड पे में लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं:-

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री / सुश्री	तिथि
1.	आर. रेणुका	14.08.2015

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री / सुश्री	तिथि
2.	हंसराज शर्मा	11.09.2015
3.	एस शन्मुगाराज	16.12.2015

जसपाल सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली—110002, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

सं. प्रशा. I/का.आ.सं.—224—इस कार्यालय के श्री शिव प्रकाश, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (₹15600—39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.10.2015 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 24.10.1955 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 26.10.1977 है।

ह./— अपठनीय
उप—निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद शाखा कार्यालय राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2 मई 2014

सं. प्रशा.—II/गजट नोटिफिकेशन/आर—12063/124/2014—15/डी—12—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

श्री राम प्रताप खटकर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

30.04.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उपनिदेशक

दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं. प्रशा.—II/गजट नोटिफिकेशन/आर—12063/124/2014—15/डी—70—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

श्री राजेन्द्र प्रसाद
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

30.09.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उपनिदेशक

दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.—II/गजट नोटिफिकेशन/आर—12063/124/2014—15/डी—95—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

श्री गौरी शंकर शर्मा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

31.10.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उपनिदेशक

दिनांक 8 दिसम्बर 2014

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/124/2014-15/डी-104—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

श्री रवेन्द्र पाल सिंह
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

30.11.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उपनिदेशक

दिनांक 10 अगस्त 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/124/2014-15/डी-60—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

श्री भगवान सहाय मीणा
लेखापरीक्षा अधिकारी

31.07.2015 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उपनिदेशक

जयपुर, दिनांक 8 जून 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/124/2014-15/डी-33—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

सर्वश्री

1. केशरी चन्द तँवर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

31.05.2015 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

2. चाँद बिहारी माथुर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

31.05.2015 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उपनिदेशक

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

सं. 5/1/2015.सी.पी.आई.—नवम्बर, 2015 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक बढ़ कर 270 (दो सौ सत्तर) अंकों के स्तर पर रहा।

श्याम सिंह नेगी
उप महानिदेशक

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 4 जनवरी 2016

सं. ए-19025/61/2015-प्रशा.। —संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्री अभय प्रताप सिंह को वेतन बैंड-2 (रु 9300-34800) + ग्रेड पे रु 4600/- में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में दिनांक 29.12.2015 (पूर्वाह्न) से अस्थाई आधार पर, विपणन अधिकारी (ग्रुप- I) (सर्वे, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एल. अनंत
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई—400001, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

सं. 6(2711)/2015—प्रशा./17562—अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा भारी पानी संयंत्र, कोटा, के सहायक कार्मिक अधिकारी, [रु 9300—34800 (पीबी-2) और ग्रेड वेतन रु 4800] श्री अविनाश तिर्पुडे, को दिनांक 12 नवम्बर 2015 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में अनुभाग अधिकारी [रु 9300—34800 (पीबी-2) और ग्रेड वेतन रु 4800] के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद—500062, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

सं. नाईस/काप्रम.1/03/58/2677—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती डेल्ला गाबेल, आशुलिपिक ग्रेड—I को रु. 4,600/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300—34,800/- वेतन बैंड-2 में दिनांक 01.12.2015 के (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी हैसियत में स्थानापन्न निजी सचिव (एन एस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन.वी.एस.वी प्रसाद
प्रशासनिक अधिकारी—III

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय का कार्यालय)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

सं. ए—19011/30/92—स्थापना—II/III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री बी.वी.एस.वी शर्मा दिनांक 31.12.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गोपाल सिंह
उप निदेशक (प्रशासन)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

एलएलपी अधिनियम 2008 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

कानपुर—208001, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

सं. टीसी/भारतीय राजपत्र/37(3)/5192—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित एलएलपी के नाम रजिस्टर से काट दिये हैं और उक्त एलएलपी विघटित हो गई हैं:—

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन सं.	एसआरएन सं.
1	ईस्टर डिजिटल सर्विसेज एलएलपी	AAC-1166	L02673465
2	अग्निमित्र रियल टेक एलएलपी	AAB-4326	L03182920
3	श्रीनिवासा स्काईस्कैपर्स एण्ड डवलपर्स इण्डिया एलएलपी	AAA-0355	L03190360
4	अभियंश बायोरिसर्च साल्यूसन्स एलएलपी	AAB-1483	L03244233
5	कैपस्योर एडवाइजर्स एलएलपी	AAB-0646	L03392792
6	रियल्टी क्लीनिक विजार्ड्स एलएलपी	AAA-7320	L03417490
7	एमेराल्ड्स इन्फोटेनमेन्ट एलएलपी	AAA-7703	L03427200
8	कैसेन्ट बोन वायेज एलएलपी	AAA-5029	L03472404

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन सं.	एसआरएन सं.
9	जीवी एडवरटाइजमेन्ट एलएलपी	AAA-7540	L03498383
10	एआरआई एलईडी लाइट्स एलएलपी	AAA-7955	L03515780
11	ज्योना टूर एण्ड ट्रेवल एलएलपी	AAA-7402	L03527173
12	जनीता एक्सपोर्ट्स एलएलपी	AAB-5747	L02422749

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
यूपी एंड उत्तराखंड

लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी के मामले में

कोलकाता, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

सं. क0र0/प0व0/एल.एल.पी-75/2014—एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 1 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं।

एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
AAC-4637	ताशा ग्लोबल वेन्चर्स एल.एल.पी.

प्रणय चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION,
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi-110003, the 17th December 2015

No. DPPERS.I/2015/232/3/67/2013-Pers-I—Services of Shri Vijay Kumar, SAO, SSB, posted as DSP in CBI on deputation basis, are placed back to his parent department i.e Shashatra Seema Bal w.e.f. 09/10/2015(AN) on premature repatriation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director(Pers.)

New Delhi – 110003, the 17th December 2015

No. DPPERS.I/2015/231/11/3/2015.—The President is pleased to appoint the following Senior Public Prosecutors, CBI as Deputy Legal Advisor in Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion w.e.f. the dates mentioned against their names:-

S. No.	NAME OF THE OFFICERS S/Shri	Date of appointment as Deputy Legal Advisor
1	Brij Mohan Lal Ahir	15.09.2015
2	Akhilesh	16.09.2015
3	Akshay Gautam	12.10.2015
4	Masood Ahmed	21.09.2015
5	Chandra Prakash Pandey	24.09.2015
6	Shyam Singh Yadav	21.09.2015

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

The 21st December 2015

No. DPPERS.I/2015/ 6149/3/19/96.—Shri Brij Mohan Lal Ahir, Deputy Legal Advisor, CBI (DSPE), ACB, Delhi has relinquished the charge of the post of Deputy Legal Advisor with effect from the afternoon of 30.09.2015 on attaining the age of superannuation.

D.P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL CENTRAL, INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi, the 28th December 2015

No.E-38013/02/Noti./GOs/2015/Pers.1/658—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Mehta on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General in the pay scale of Rs.37,400-67,000 (PB-4) plus Grade Pay Rs.8,900/- notionally with effect from 14.07.2014 (AN) i.e. from the date on which his immediate junior Shri J.W. Khan had assumed charge of the post of Deputy Inspector General against the vacancy year 2014-15. Hence, his pay may be fixed accordingly.

2. Shri Yogesh Mehta has assumed the charge of the post of Deputy Inspector General on 17.12.2015 (FN) on regular basis at CISF NEZ HQs Kolkata. The notional date of promotion in the rank of Deputy Inspector General would only safeguard his seniority and he will not be entitled for arrears of pay & allowances of the post of Deputy Inspector General with effect from 14.07.2014(AN) to 16.12.2015 (AN) as per laid down Government instructions.

SD/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICER OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(ECONOMIC & SERVICE MINISTRIES)

New Delhi-110002, the 30th December 2015

No. AMG-I/Admn.I/2 (1)/GZT/2015/1204—The Director General of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Assistant Audit Officers as Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800, with Grade Pay Rs. 5400, from the date shown against them :

Sl. No.	Name S/Shri	Date of promotion
1.	R.Renuka	14.08.2015
2.	Hansraj Sharma	11.09.2015
3.	S. Shanmugaraj	16.12.2015

JASPAL SINGH
Dy. Director (Admn.)

CENTRAL EXPENDITURE

New Delhi-110002, the 28th October 2015

No. Admn.I/O.O. No.-224—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Shiv Prakash, Senior Audit Officer (₹15600—39100 + Grade Pay ₹ 5400) of this office is retiring from Government Service on 31.10.2015 (A/N).

His date of birth is 24.10.1955 and he joined Government service on 26.10.1977.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) AHMEDABAD
BRANCH OFFICE RAJASTHAN

Jaipur, the 2nd May 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D-12—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

Shri Ram Pratap Khatkar, Retired on superannuation wef. 30.04.2014 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director

The 7th October 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D-70—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

Shri Rajendra Prasad Retired on superannuation wef. 30.09.2014 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director

The 7th November 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D-95—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

Shri Gouri Shankar Sharma Retired on superannuation wef. 31.10.2014 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director

The 8th December 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D-104—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

Shri Ravendra Pal Singh Retired on superannuation wef. 30.11.2014 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director

The 10th August 2015

No.: Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D-60—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

Shri Bhagwan Sahai Meena Retired on superannuation wef. 31.07.2015 (AN)
Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director

Jaipur, The 8th June 2015

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D-33—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

S/Shri

1. Keshri Chand Tanwar Retired on superannuation wef. 31.05.2015 (AN)
Senior Audit Officer
2. Chand Behari Mathur Retired on superannuation wef. 31.05.2015 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st December 2015

No. 5/1/2015-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 increased by 1 point and stood at 270 (two hundred seventy) for the month of November, 2015.

SHYAM SINGH NEGI
Dy. Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad-121001, the 4th January 2016

No.A-19025/61/2015-A.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri Abhay Pratap Singh has been appointed as Marketing Officer (Group-I) (Survey, Training & Quality Control) in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) + Grade Pay of Rs. 4600/- on temporary basis in the Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Kolkata with effect from 29th December, 2015 (Forenoon).

L. ANANTH
Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai - 400 001, the 28th December 2015

No.6(2711)/15-Adm/17562—Additional Secretary, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Avinash Tirpude, Assistant Personnel Officer [Rs. 9300-34800 (PB-2) with Grade Pay Rs. 4800], Heavy Water Plant, Kota, as Section Officer [Rs. 9300-34800 (PB-2) with Grade Pay Rs. 4800], in DAE, Mumbai with effect from the forenoon of 12th November, 2015.

A. SUKUMARAN
Under Secy.

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 31st December 2015

No. NFC/PAR-I/03/58/2677—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex appoints Smt. Della Gabell, Stenographer Gr. I, EC No. 4162 to officiate as Private Secretary (NS) in temporary capacity in the Pay band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4600/- with effect from 01.12.2015 (FN), until further orders.

N.V.S.V. PRASAD
Admn. Officer-III

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 31st December 2015

No. A. 19011/30/1992-E.II/III—On attaining the age of superannuation, Shri BVSV Sarma, Deputy Director of Airworthiness in DGCA stands retired from Governemnt Service with effect from the afternoon of 31st December, 2015.

GOPAL SINGH
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of LLP Act 2008 and of the following LLPs

Kanpur-208001, the 28th December 2015

No.TC/Govt. Gazette /37(3)/5192—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of the following Limited Liability Partnerships has this day been struck off the register and the said LLPs are dissolved:-

Sl. No.	Name of the Company	CIN No.	SRN No.
1	EISTER DIGITAL SERVICES LLP	AAC-1166	L02673465
2	AGNIMITRA REAL TECH LLP	AAB-4326	L03182920
3	SHRINIVASA SKYSCRAPPERS & DEVELOPERS INDIA LLP	AAA-0355	L03190360

Sl. No.	Name of the Company	CIN No.	SRN No.
4	ABHIYANSH BIORESEARCH SOLUTIONS LLP	AAB-1483	L03244233
5	CAPSURE ADVISORS LLP	AAB-0646	L03392792
6	REALTY CLINIC WIZARDS LLP	AAA-7320	L03417490
7	EMERALDS INFOTAINMENT LLP	AAA-7703	L03427200
8	CRESCENT BON VOYAGE LLP	AAA-5029	L03472404
9	GV ADVERTISEMENT LLP	AAA-7540	L03498383
10	ARI LED LIGHTS LLP	AAA-7955	L03515780
11	JYONA TOUR AND TRAVEL LLP	AAA-7402	L03527173
12	ZANITA EXPORTS LLP	AAB-5747	L02422749

S P KUMAR
Registrar of Companies,
UP & Uttarakhand,

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs
Kolkata, the 23rd December 2015

No.ROC/WB/LLP-75/2014—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 1 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved.

LLPIN	Name of the LLP
AAC-4637	TASHA GLOBAL VENTURES LLP

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in